

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री आदित्य नाथ को शपथ ग्रहण करायी
दो उपमुख्यमंत्री, 22 मंत्री, 9 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं 13 राज्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की

लखनऊ: 19 मार्च, 2017

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज कांशीराम स्मृति उपवन में आयोजित नये मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिमण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में श्री आदित्य नाथ योगी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री केशव प्रसाद मौर्य एवं डॉ० दिनेश शर्मा को उपमुख्यमंत्री, 22 मंत्री, 9 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा 13 राज्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री श्री वेंकैया नायडू, श्री कलराज मिश्र, श्री नीतिन गडकरी, श्री रविशंकर प्रसाद, श्री संतोष गंगवार, सुश्री उमा भारती, श्री महेश शर्मा, सुश्री अनुप्रिया पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडनवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजयभाई आर० रूपानी, राजस्थान की मुख्यमंत्री सुश्री वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह, आसाम के मुख्यमंत्री श्री सार्बानंद सोनोवाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू, जम्मू एवं कश्मीर के उपमुख्यमंत्री डॉ० निर्मल कुमार सिंह, सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री श्री एन०डी० तिवारी, विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद श्री लालकृष्ण आडवाणी एवं श्री मुरली मनोहर जोशी, अनेक सांसद, प्रशासनिक, पुलिस, न्यायिक, सेना के अधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे।

इससे पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक ने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत किया तथा शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात् प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर विदाई भी दी।

राज्यपाल ने श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री सुरेश खन्ना, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सतीश महाना, श्री राजेश अग्रवाल, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, श्री दारा सिंह चौहान, श्री धरमपाल सिंह, श्री एस०पी० सिंह बघेल, श्री सत्यदेव पचौरी, श्री रमापति शास्त्री, श्री जय प्रकाश सिंह, श्री ओम प्रकाश राजभर, श्री बृजेश पाठक, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री चेतन चौहान, श्री श्रीकांत शर्मा, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री आशुतोष टण्डन एवं श्री नंद कुमार गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण करायी।

राज्यपाल ने श्रीमती अनुपमा जैसवाल, श्री सुरेश राणा, श्री उपेन्द्र तिवारी, डॉ० महेन्द्र सिंह, श्री स्वतंत्रदेव सिंह, श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, श्री धरम सिंह सेनी, श्री अनिल राजभर एवं श्रीमती स्वाति सिंह को राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पद की शपथ दिलायी। शपथ ग्रहण समारोह में श्रीमती गुलाबो देवी, श्री जय प्रकाश निषाद, श्रीमती अर्चना पाण्डेय, श्री जय कुमार सिंह जैकी, श्री अतुल गर्ग, श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री नीलकंठ तिवारी, श्री मोहसिन रज़ा, श्री गिरीश यादव, श्री बलदेव ओलाख, श्री मन्नु कोरी, श्री संदीप सिंह तथा श्री सुरेश पासी ने राज्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की।

कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर ने किया।





